

**Northern Coalfields Limited**

(Govt. of India Mini Ratna Company)

Post- Singrauli Colliery

Distt- Singrauli MP PIN-486889



**नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड**

(भारत सरकार का एक मिनि रत्न प्रतिष्ठान)

पोस्ट सिंगरौली कोलियरी,

जिला- सिंगरौलीम. प्र., पिन 486889

CIN- U10102MP1985GOI003160

Phone: 07805- 266808 (Off) , 266640 (Fax)email: [pro@ncl.gov.in](mailto:pro@ncl.gov.in)website : [www.ncl.gov.in](http://www.ncl.gov.in)

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

क्रमांक:- एनसीएल/सिंग/प्रे. वि./2016-17/

दिनांक - 07.11.2016

## एनसीएल की सीएसआर टीम ने किया शासकीय कन्या हाई स्कूल, पंजरेह में सफाई कार्य

भारत सरकार की मिनि रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) टीम ने सोमवार को शासकीय कन्या हाई स्कूल, पंजरेह में सफाई कार्य किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'स्वच्छ भारत अभियान' में योगदान देने के उद्देश्य से एनसीएल में 1 नवंबर से 15 नवंबर 2016 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा' का आयोजन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत यह सफाई कार्य किया गया।

एनसीएल के मुख्य प्रबन्धक (सिविल/सीएसआर) श्री बिकुल बोरठाकुर की अगुवाई में एनसीएल की सीएसआर टीम ने श्रम दान कर विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाओं और छात्राओं के सहयोग से विद्यालय परिसर में सफाई की। साथ ही, टीम ने विद्यालय की कक्षा 9 और 10 की छात्राओं को सफाई का महत्व बताया और उनसे अपने घर एवं विद्यालय परिसर सहित आसपास के सभी सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई कर उन्हें साफ रखने की अपील की।

छात्राओं को संबोधित करते हुए श्री बोरठाकुर ने कहा कि भारतीय छात्राएं अपनी पढ़ाई में गंभीर होने के साथ-साथ घर परिवार के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए छात्राओं के माध्यम से समाज में स्वच्छता का संदेश सबसे प्रभावी तरीके से फैलाया जा सकता है। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे स्वयं अपने घर और विद्यालय की सफाई रखने के साथ-साथ अपने परिजनों को भी सफाई रखने के लिए प्रेरित कर स्वच्छ भारत के लक्ष्य प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाओं और छात्राओं ने विद्यालय परिसर में सफाई कार्य करने के लिए एनसीएल की सीएसआर टीम को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई की कंपनी आगे भी उनके विद्यालय में कल्याणकारी कार्य कराती रहेगी।

गौरतलब है कि एनसीएल में 1 नवंबर से 15 नवंबर 2016 तक 'स्वच्छता पखवाड़े' का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कंपनी मुख्यालय सहित सभी परियोजनाओं/ इकाइयों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर सफाई कार्य कर लोगों में स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है।

स्वच्छता पखवाड़े की शुरुवात 1 नवम्बर को सिंगरौली बस स्टैंड पर कचरा पेटियां लगाकर की गई। साथ ही, एनसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान कर बस स्टैंड पर सफाई कार्य भी किया। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान एनसीएल सिंगरौली नगर निगम के कार्य क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर अपने सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत 50 कचरापेटियां लगा रही है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग रंग की ये पेटियां 2-2 पेटियों के जोड़े में लगाई जा रही हैं ताकि प्लास्टिक और अन्य प्रकार का कचरा अलग-अलग पेटियों में डाला जाए।

Northern Coalfields Limited

(Govt. of India Mini Ratna Company)

Post- Singrauli Colliery

Distt- Singrauli MP PIN-486889



नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक मिनि रत्न प्रतिष्ठान)

पोस्ट सिंगरौली कोलियरी,

जिला- सिंगरौलीम. प्र., पिन 486889

CIN- U10102MP1985GOI003160

Phone: 07805- 266808 (Off) , 266640 (Fax)email: [pro@ncl.gov.in](mailto:pro@ncl.gov.in)website : [www.ncl.gov.in](http://www.ncl.gov.in)

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

क्रमांक:- एनसीएल/सिंग/प्रे. वि./2016-17/

दिनांक - 07.11.2016

1 नवम्बर को ही कंपनी की सीएसआर टीम ने बिरकुनियां गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में श्रमदान कर सफाई कार्य कर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही, स्वच्छता पखवाड़े के पहले दिन एनसीएल मुख्यालय की कॉलोनी की सफाई भी की गई, जिसमें मुख्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने श्रमदान कर स्वच्छता फैलाने में अपना योगदान दिया।

सीरज कुमार सिंह  
जनसंपर्क अधिकारी